

**प्रेस नोट दिनांक 31.10.2022**

**थाना सीबीगंज जनपद बरेली ।**

**थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 419/22 धारा 379 भादवि0 का सफल अनावरण कर दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमन्चा, कारतूस व एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं0 DL2C AK3537 व एक पिपिया जिसमे 30 लीटर डीजल तेल एवं 03 प्लास्टिक की 35-35 लीटर की खाली पिपिया (कुल 04 पिपिया ) बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय जनपद बरेली के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सीबीगंज के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 419/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण कर कल दिनांक 30.10.2022 समय करीब 22.35 बजे परसाखेडा फैक्ट्री एरिया से अभियुक्तों 1. मो0 आरिफ पुत्र मो0 शकील 2. आरिफ शाह पुत्र कल्लू शाह नि0 गण मौहल्ला फरकपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज, एक अदद लोहा कटर, एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं0 DL2C AK3537 व एक पिपिया जिसमे 30 लीटर डीजल तेल व 03 प्लास्टिक की 35-35 लीटर की (कुल 04 पिपिया) बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 421/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो0 आरिफ पुत्र मो0 शकील व मु0अ0सं0 422/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आरिफ शाह पुत्र कल्लू शाह पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

**पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 419/22 धारा 379/411 भादवि थाना सीबीगंज बरेली ।
2. मु0अ0सं0 421/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज बरेली ।
3. मु0अ0सं0 422/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज बरेली ।

**आपराधिक इतिहास:- आरिफ उर्फ अफसर पुत्र शकील नि० मो० फरकपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।**

1. मु0अ0सं0 573/17 धारा 380/511 भादवि थाना बारादरी बरेली ।
2. मु0अ0सं0 297/20 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना फरीदपुर बरेली ।
3. मु0अ0सं0 568/21 धारा 406/420 भादवि थाना फरीदपुर बरेली ।

**बरामदगी का विवरण:-** एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज, एक अदद लोहा कटर, 02 अदद मोबाइल कीपैड ( एक जियो का तथा एक नोकिया का ) तथा एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं० DL2C AK3537 व एक पिपिया जिसमे 30 लीटर डीजल तेल व 03 प्लास्टिक की 35-35 लीटर की खाली पिपिया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. मो0 आरिफ पुत्र मो0 शकील नि० मो० फरकपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2. आरिफ शाह पुत्र कल्लू शाह नि० मो० फरकपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री सतीश कुमार नैन थाना सीबीगंज बरेली ।
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार मिश्र थाना सीबीगंज बरेली ।
3. हे0का0439 गुरुवचन, थाना सीबीगंज बरेली।
4. का0 495 कपिल थाना सीबीगंज बरेली।